



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]
No. 29]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1981/पौष 7, 1903
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1981/PAUSA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1981

का. नि. आ. 39-(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्वारा तदर्थ घोषणा करती है और यह अतिरिक्त निदेश देती है कि 30 दिसम्बर 1981 से एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या-29/42/सी/एल एण्ड सी/66/3654-सी/डी
(क्यू एण्ड सी)]
भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th December, 1981

39(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924, the Central Government, being satisfied that for administration of the cantonment, it is desirable to vary

the constitution of the Cantonment Board, Secunderabad, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of one year with effect from the 30th December, 1981.

[File No. 29/42/C/L&C/66/3654-C/D(Q&C)]

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1981

का. नि. आ. 40-ई.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 39-ई दिनांक 28 दिसम्बर 1981 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर 1981 के भाग-2 खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद के सदस्य के रूप में 30 दिसम्बर, 1981 से मनोनीत किया गया है :—

1. ल. कं. अमरजीत सिंह—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित

2. नवाब महमूद खान—धारा 14 की उपधारा (2) के
खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या-29/42/सी/एल एण्ड सी/66/3654/1-सी/डी
(क्यू एण्ड सी)]
भोस्कर घोष, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th December, 1981

S.R.O. 40(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with

notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 39-E dated the 28th December, 1981, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated the 28th December, 1981, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board, Secunderabad with effect from 30th December, 1981 :-

1. Lt. Col. Amarjit Singh—nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Nawab Mahmood Khan—nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[File No. 29/42/C/L&C/66/3654/1-C/D(Q&C)]
BHASKAR GHASE, Jt. Secy.